



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 114]

No. 114]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 2, 1982/चैत्र 12, 1904

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 2, 1982/CHAITRA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1982

सं० 126/82—केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० वि० 302(अ) —केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क
नियम, 1944 के नियम (8) के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
की अधिसूचना सं० 250/79-के० उ० शु०, तारीख 17 अगस्त, 1979
का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में उपाखंड सारणी में, क्रम सं० 2 के सामने, स्तंभ
(3) में “मिट्टी का तेल” शब्दों के स्थान पर “मिट्टी का तेल और वैमानिक
टरबाइन ईंधन” शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० बी० 37/2/82-टी० आर० यू०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 2nd April, 1982

No. 126/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 302(E).—In exercise of the powers conferred by
sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the
Central Government hereby makes the following further

amendment in the notification of the Government of India
in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.
250/79-Central Excises, dated the 17th August, 1979,
namely:—

In the Table annexed to the said notification, against S.
No. 2, in column (3), for the word “Kerosene”, the words
“Kerosene and aviation turbine fuel” shall be substituted.

[F. No. B37/2/82-TRU]

सं० 127/82—केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० वि० 303(अ) —केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधि-
नियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क
की उपमद (1) में वर्णित सामग्री की कतिपय वस्तुएं विषय विवेक,
1982 के खण्ड 49 द्वारा उक्त मद की उपमद (2) के अधीन विनिर्दिष्ट
की गई हैं:

अतः केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम
8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे सभी
उत्पाद शुल्कय माल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है)
को, जिस पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय है और उक्त उपमद (1) में वर्णित
सामग्री को ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण में जो उक्त मद 15 क में विनि-
र्दिष्ट नहीं की गई है किन्तु उक्त मद के अधीन वर्गीकरण योग्य है और
जिनको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग)
की अधिसूचना सं० 68/71 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 मई, 1971
लागू होती है, कच्ची सामग्री या संबन्धित भागों (जिसे इसमें इसके पश्चात्
निवेश कहा गया है) के रूप में प्रयोग की गई है, उन पर उद्ग्रहणीय
उक्त उत्पाद शुल्क से, जो ऐसे निवेश पर पहले से ही संवत् उत्पाद शुल्क
के समतुल्य है, छूट देती है।

परन्तु यह तब जब कि इस अधिसूचना के अधीन छूट के संबंध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 201/79 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 4 जून, 1979 के परिशिष्ट में अधिकृत प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ;

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई भी बात उक्त माल को लागू नहीं होगी जो उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है या जिस पर शुल्क दर पर उत्पाद शुल्क प्रभावी है ;

परन्तु यह भी कि निवेशों की बाबत इस आधार पर शुल्क की मुजरा से इन्कार नहीं किया जाएगा या उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा कि ऐसे निवेश का कोई भाग उक्त माल के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान उद्भूत अपशिष्ट, कचरे या उपोत्पाद में अन्तर्लिप्त है इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि ऐसा अपशिष्ट कचरा उपोत्पाद उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पादशुल्क से छूट प्राप्त है या शुल्क दर पर उत्पाद शुल्क से प्रभावी है या उक्त अधिसूचना सं० 201/79—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, के परिशिष्ट में निर्दिष्ट घोषणा में उल्लिखित नहीं है।

[फा० सं० बी० 7/6/82-टी०आर० यू०]

No. 127/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 303(E).—Whereas certain articles of materials described in sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) have been specified under sub-item (2) of the said Item by clause 49 of the Finance Bill, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts all excisable goods (hereinafter referred to as "the said goods"), on which duty of excise is leviable and in the manufacture of which articles of materials described in the said sub-item (1) as have not been specified in the said Item No. 15A, but classifiable under the said Item and to which the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 68/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, applies, have been used as raw materials or component parts (hereinafter referred to as "the inputs"), from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise already paid on the inputs :

Provided that in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in the Appendix to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 201/79-Central Excises dated the 4th June, 1979 is followed :

Provided further that nothing contained in this notification shall apply to the said goods which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon or are chargeable to nil rate of duty ;

Provided also that credit of the duty allowed in respect of the inputs shall not be denied or varied on the ground that part of such inputs is contained in any waste, refuse or by-product arising during the process of manufacture of the said goods, irrespective of the fact that such waste, refuse or by-product is exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon or is chargeable to nil rate of duty or is not mentioned in the declaration referred to in the Appendix to the said notification No. 201/79-Central Excises.

[F. No. B7/6/82-TRU]

सं० 128/82—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० फा० नि० 304(अ):—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15 के

की उपमद (1) में वर्णित सामग्री की कतिपय वस्तुएं, वित्त विधेयक, 1982 के खण्ड 49 द्वारा उक्त मद की उपमद (2) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उपमद (1) में वर्णित सामग्री की उन वस्तुओं को, जो उक्त मद सं० 15 के विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं किन्तु उक्त मद (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) के अधीन वर्गीकरण योग्य हैं और जिन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 68/71—केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 29 मई, 1971, लागू होती है और जो किसी कारखाना में विनिर्मित है तथा उस कारखाना में, जिसमें उनका विनिर्माण किया गया है या उसी विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने में प्रयोग के लिए आशयित है, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु जहां ऐसा उपयोग, विनिर्माता के उस कारखाने जिसमें उक्त माल विनिर्मित किया गया है, से भिन्न किसी कारखाने में किया जाता है, वहां इस अधिसूचना में अन्तर्लिप्त छूट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में अधिकृत प्रक्रिया का अनुपालन किए जाने के अधीन अनुज्ञेय होगी ;

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई भी बात किसी कारखाने में विनिर्मित और किसी माल के उत्पादन या प्रसंस्करण के लिए अभिप्रेत सम्पूर्ण मशीनरी को लागू नहीं होगी भले ही वह उस कारखाने में जिसमें वह विनिर्मित किया गया है या उसी विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने में प्रयोग के लिए आशयित है।

[फा० सं० बी० 7/6/82-टी०आर० यू०]

बी० लक्ष्मी कुमारन्, अवर सचिव

No. 128/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 304(E).—Whereas certain articles of materials described in sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) have been specified under sub-item (2) of the said Item by clause 49 of the Finance Bill, 1982 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts articles of materials described in the said sub-item (1) as have not been specified in the said Item No. 15A, but classifiable under the said Item (hereinafter referred to as the said goods) and to which the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 68/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, applies and manufactured in a factory and intended for use in the factory in which they are manufactured, or in any other factory of the same manufacturer, from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that where such use is in a factory of manufacturer, different from his factory where the said goods have been manufactured, the exemption contained in this notification shall be allowable subject to the observance of the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 ;

Provided further that nothing contained in this notification shall apply to complete machinery manufactured in a factory and meant for producing or processing any goods even if they are intended for use in the same factory in which they are manufactured or in any other factory of the same manufacturer.

[F. No. B7/6/82-TRU]

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.